

## इंडिया हैंडलूम ब्रांड

### मंत्रालय

वस्त्र मंत्रालय - विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय

### इसके बारे में और लाभ

'इंडिया हैंडलूम' ब्रांड का उद्देश्य एक विशेष बाजार को पैदा करना और बुनकरों के आय में वृद्धि करना है। इस प्रकार से 'इंडिया हैंडलूम' की अवधारणा हथकरघा उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है जो विशेष 'गुणवत्ता' के साथ-साथ सामाजिक व पर्यावरण के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं की जरूरत को पूरा करे। यह ब्रांड ई-कॉमर्स साइटों पर उत्पादकों को अपने हथकरघा उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाएगा।

इंडिया हैंडलूम एक सदस्यता आधारित प्रणाली है, जो 3 साल के लिए मान्य होगा और यह सख्त गुणवत्ता मानकों के आधार पर प्रदान किया जाता है।

### पात्रता

जो पात्र हैं, उन्हें इन श्रेणियों में से कोई एक होना चाहिए:

(क) बुनकर

(ख) मास्टर बुनकर

(ग) प्राथमिक सहकारी समितियां

(घ) सर्वोच्च हथकरघा समितियां,

(ई) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), भागीदारी, निर्माता कंपनियां, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), हथकरघा बुनकर समूह (एचडब्ल्यूजी), आदि

### शिल्प पात्र:

शिल्प और गुणवत्ता अपेक्षाओं के लिए <http://handlooms.nic.in/writereaddata/2405.pdf> का संदर्भ लें।

### ब्रांड निम्नलिखित उत्पादों को प्रमाणित करेगा:

- साड़ी
- धोती
- ड्रेस मटीरियल
- स्कार्फ/स्टोल/शॉल
- बेड शीट/ बेड कवर
- होम फर्निशिंग्स
- अन्य

### आवेदन कैसे करें

1. यहां से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें  
[http://handlooms.nic.in/User\\_Panel/DetailsView.aspx?TypeID=1114](http://handlooms.nic.in/User_Panel/DetailsView.aspx?TypeID=1114) या स्थानीय बुनकर सेवा केंद्र से इसे प्राप्त करें और उनके ही पास जमा कर दें
2. ऑनसाइट सत्यापन किया जाएगा।

3. एक बार मंजूरी मिल गई तो प्रत्येक उत्पादित सामान के प्रति 500 रुपए का सत्यापन शुल्क लिया जाता है। भुगतान मुंबई के 'टेक्स्टाइल कमिटी' ('Textiles Committee' at Mumbai) के लिए चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए लॉग ऑन करें [www.textilescommittee.gov.in](http://www.textilescommittee.gov.in).
4. एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो कारीगरों को हम इंडिया हैंडलूम लोगो का उपयोग करने और ऐसे ई-कॉमर्स साइट जो इसका समर्थन करते हैं, वहां बेचने की अनुमति देते हैं।

अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें - <http://handlooms.nic.in/writereaddata/2404.pdf>,  
<http://handlooms.nic.in/>